

राज्य आनंद संस्थान के साथ कार्यशाला के लिए सूची-बद्ध व्यक्ति/ संगठन/ संस्थान

सूचीबद्ध (संगठन/संस्थान) :	व्यक्ति
नाम :	Joozar Shukla Hastak
पता :	B-403, Apostrophe, Dutt Mandir Road, Wakad, Pune. MH-411057
संपर्क नंबर :	91 9923463683
ईमेल :	joozar@gmail.com

कार्यशाला संचालित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पते :

नाम	मोबाइल नो	ईमेल	पता
Joozar Shukla Hastak	+91-9923463683	joozar@gmail.com	Bhopal

कार्यशाला का शीर्षक :

You can Heal Your Life Workshop

कार्यशाला का विवरण :

Louise L Hay's "You Can Heal your life" is a transformational workshop where we go deeper on 4 aspec

कार्यशाला के अपेक्षित परिणाम :

Learn powerful techniques on Mind-body alignment, Emotion Release & Management, Visualizations.

कार्यशाला की अवधि :

2 Days

समय सारणी

दिन	प्रारम्भ	समाप्ति	हाफ डे
1	09:30:00	18:30:00	
2	09:30:00	18:30:00	

रजिस्ट्रेशन करने के सम्बन्ध में नोट :

6500 per person

प्रतिभागियों की संख्या :

न्यूनतम : 10

अधिकतम : 10

कार्यशाला हेतु आयोजनकर्ता संस्थान से अपेक्षित सहयोग/संसाधन :

- Room with flexi sitting (to be clean & without disturbance)
- 2 center tables - Water for participants - White board & markers - Notepad & pens Request for food arrangements to be as below: 1. Breakfast - 1 item per day (Poha OR Idli Sambhar OR Idli Wada combo OR Upma) with tea / coffee and biscuits. If the event falls on a fasting day - 1 item which people can eat can be included. 2. Lunch - - Day 1: 1 paneer veg, dal, chapati & rice. - Day 2: Seasonal veg, dal, chapati & rice. 3. Evening Snack - Tea / Coffee with cookies. Note: It is understood that the participants are Class 1 audience, however, too elaborate a spread of food takes time to be served as well as it prolongs the time of the break which impacts the overall program time management.

प्रति कार्यशाला की दर, यात्रा, रुकना, स्थानीय परिवहन सहित (GST अतिरिक्त):

Rs.65000.00/- (रूपये में)

शुल्क भुगतान का तरीका एवं शर्तें :

Payment through bank transfer.

प्रतिभागियों से कार्यशाला में आने के पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में:

Participants to carry: 1. Notebook to pen the learnings. Select a notebook on which you feel like writing.. 2. Wear comfortable clothes that allow you to sit on floor for sometime... 3. Own water bottles for ease of re-filling & go-green... 4. Your mindful self...where you learn with joy & openness...
